

तुरंत रिलीज के लिए

**ए.एम.ओ. 2020 कान्फ्रेंस में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन:
आर्थिक बहाली और वृद्धि के लिए साझेदारी**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 अगस्त, 2020) – 17 से 19 अगस्त तक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल, एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल्टीज (ए.एम.ओ.) 2020 वर्चुअल कान्फ्रेंस (Association of Municipalities (AMO) 2020 Virtual Conference) में हिस्सा लेगा। मेयर पैट्रिक ब्राउन के नेतृत्व में, काउंसिल के मेम्बर और सिटी के अधिकारी, ब्रैम्पटन की सबसे जरूरी आवश्यकताओं के बारे में पूरे प्रांत में, मुख्य स्टैकहोल्डर्स से जुड़ेंगे।

मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, कन्जरवेशन एंड पार्क्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉलेज्स एंड यूनिवर्सिटीज के साथ, मीटिंगों की पुष्टि कर ली गई है।

कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने की अपनी जारी प्रक्रिया को देखते हुए, इस वर्ष सिटी की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक, इसकी आर्थिक बहाली के लिए लगातार सहयोग प्राप्त करना होगी। सिटी के अधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिकताओं को भी उजागर करेंगे, जो सिटी की स्थिर वृद्धि को कायम रखने और निवासियों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इनमें शामिल हैं:

- **हेल्थकेयर** – पील मेमोरियल (Peel Memorial) के फेज टू और तीसरी हेल्थकेयर फेसिलिटी के लिए प्रतिबद्धता।
- **हायर ऑर्डर ट्रांज़िट** – ट्रांज़िट के नए मोड्स में बढ़ा हुआ निवेश, जिनमें शामिल हैं, टू-वे ऑल-डे गो सर्विस (Two-Way All-Day GO Service), लाइट रेल ट्रांज़िट (Light Rail Transit) और बस रैपिड ट्रांज़िट (Bus Rapid Transit)।
- **जलवायु बदलाव और बाढ़ को कम करना** – फंडिंग और आसान मंजूरीयों के द्वारा, सिटी के रिवरवॉक (Riverwalk) प्रोजेक्ट से बढ़ी हुई साझेदारी और कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशनस रिडक्शन प्लान (सी.ई.ई.आर.पी.) (Community Energy and Emissions Reduction Plan) (CEERP) के द्वारा पहचाने गए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (Green Infrastructure) प्रोजेक्ट्स में नया निवेश।
- **क्रियाशील ट्रांस्पॉर्टेशन** – बढ़े हुए व्यवहारिक गतिशीलता विकल्प, जो सभी निवासियों के लिए ट्रांस्पॉर्टेशन नेटवर्क्स की सुरक्षा और सुलभता को बढ़ाते हैं।
- **पोस्ट-सेकंडरी अवसर** – BramptonU की मौजूदगी को कानूनी रूप देते हुए, बढ़े हुए पोस्ट-सेकंडरी शिक्षा संबंधी अवसरों के लिए सहयोग।
- **प्रॉपर्टी टैक्स-छूट पब्लिक इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज** – कोविड-19 के प्रभावों पर ध्यान देने के लिए और संपूर्ण व सफल आर्थिक बहाली को सुनिश्चित करने के लिए, स्थिर फंडिंग के लिए अनुरोध।
- **अर्बन कम्युनिटी हब** – ब्रैम्पटन में, ट्रांज़िट-ओरिएंटेड कम्युनिटीज (टी.ओ.सी.) (Transit-Oriented Communities) (TOC) को विकसित करने के लिए नए विकास मॉडल के तौर पर, अर्बन कम्युनिटी हब (Urban Community Hub) के साथ, 20 मिनट पैदल चलने वाला, स्वस्थ पड़ोस ग्रहण करने के लिए प्रांत को अनुरोध करना।

अधिक जानने के लिए, सिटी की [वेबसाइट \(Website\)](#) पर जाएं।

हवाले

“हम एक अनुकूलित दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं, जो कोविड-19 के प्रभावों से, हमारी आर्थिक बहाली को सहयोग करता हो। साथ ही हम लोकल समाधानों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे हमारी सिटी की स्थिर वृद्धि संचालित होगी और हमारे निवासियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। मैं हाल ही की प्रतिबद्धताओं के लिए प्रांत का धन्यवाद करता हूं, जो इसने ब्रैम्पटन के लिए दर्शाई हैं। मैं आर्थिक बहाली और वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, इसके निर्माण के लिए उत्साहित हूं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कोविड-19 को फैलने से रोकने के हमारे प्रयासों के दौरान, सिटी ने जरूरी और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है, जिन पर हमारे निवासी निर्भर करते हैं। साथ ही सिटी ने उन मुख्य प्रोजेक्ट्स में भी प्रगति की है, जो हमारी संपूर्ण आर्थिक बहाली और लगातार वृद्धि को सहयोग करते हैं। सरकार के उच्च महकमों का निकट सहयोग, हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम ब्रैम्पटन के भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं। मैं ए.एम.ओ. 2020 के दौरान प्रांत के साथ, मुख्य साझेदारी संबंधी अवसरों पर चर्चा करने के लिए उत्साहित हूं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ Twitter, Facebook, और Instagram पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca